



नाइजीरिया का इंजीनियर कर रहा था भारत में ठगी

- रावतपुर थाना निवासी युवक से ठगे 1247272 रुपए
- क्राइम ब्रांच ने ठगी करने वाले नाइजीरियन समेत दो युवक पकड़े
- पीड़ित युवक दुबई में रहकर नौकरी करता है
- भारत में बिजनेस करने के लिए पार्टनर बनाने का दिया झांसा
- कस्टम ऑफिसर बनकर युवक को लिया अरदब में
- गैंग में महिला सदस्य भी शामिल, क्राइम ब्रांच कर रही तलाश

कानपुरा विदेश से गिफ्ट के नाम पर लाखों का फ्राड करने वाले दो अभियुक्तों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में से एक नाइजीरियन इंजीनियर भी शामिल है। गैंग में एक महिला भी शामिल है जो कस्टम आफिसर बनकर लोगों को दबाव में लेने का काम करती थी। पूरे गैंग ने युवक से 12,47,272/- रुपये की ठगी की है। पकड़े गए अभियुक्तों से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करके गैंग के तार खंगालने में जुटी है।

घटनाक्रम के मुताबिक दिनांक 30.05.2022 को थाना रावतपुर निवासी प्रदीप कटियार पुत्र संतोष नरायन कटियार ने क्राइम ब्रांच की

साइबर सेल में आकर शिकायत दर्ज किया कि उनके साथ विदेशी गिफ्ट का कस्टम टैक्स देने के नाम पर आनलाइन 12,47,272/- रुपये (बारह लाख सैतालिस हजार दो सौ बहत्तर रुपये) आनलाइन साइबर फ्राड हो गया है। इसके सम्बन्ध में थाना रावतपुर में अभियोग अन्तर्गत धारा 420 IPC व 66D IT Act पंजीकृत किया गया।

मामले की जाँच कि गयी तो आवेदक प्रदीप कटियार द्वारा अलग-अलग दिनों में अभियुक्त के भिन्न-भिन्न 06 बैंक खातों कुल 12,47,272/- रुपये भेजे गये थे। जाँच क्रम में साइबर सेल द्वारा सभी बैंक खातों को फ्रीज कराया गया तथा अन्य विवरण प्राप्त कर आज दिनांक 11.01.2023 को कुल 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.टीटू सिंह पुत्र निर्मल सिंह निवासी 179 चन्द्र बिहार निलौरी विस्तार नागलोई पश्चिमी दिल्ली-110041

2.अर्नेस्ट संडे मोरा पुत्र मोरा पता एँनम्ब्रा, नाइजीरिया, हालपता- संतगढ, दिल्ली । अर्नेस्ट संडे मोरा उपरोक्त ने Information Technology से Engineering की डिग्री नाइजीरिया से प्राप्त किया है तथा विगत कुछ वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहा है।

ऐसे हुई ठगी प्रदीप कटियार ने बताया कि वह दुबई में रहकर नौकरी करता है, उसके पास एक व्यक्ति का फोन आया जिसने बताया कि मेरा नाम एलेक्स जार्ज है और कुछ देर बात होने के बाद जब उसने दोस्ती कर ली तो उसने बताया कि मुझे इण्डिया में बिजनेस करना है और मुझे पार्टनर बनाने के लिए कहा जिसके बाद उसने कहा कि मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ जिसके कुछ दिन बाद मेरे पास एक सोनम नाम की महिला का फोन आया, जिसने खुद को मुम्बई एअरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी बताया और कहा कि एअरपोर्ट पर आपके नाम का एक बैग आया है जिसमें 33 करोड़ रुपए हैं। जिसे एलेक्स जार्ज नामक व्यक्ति ने भेजा है और बताया कि आपको इसे लेने के लिए 3 लाख रुपए कस्टम टैक्स देना पड़ेगा। जिसके बाद मुझसे अलग-अलग दिनांक पर पैसे माँगे जाते रहे। अभियुक्त के भिन्न-भिन्न 06 बैंक खातों कुल 12,47,272 /- रुपये अलग-अलग दिनों में भेजे गये।

यह बोले अभियुक्त क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा की गई पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों की टीम में और लोग शामिल हैं। हम लोग फुटपाथ पर रह रहे लोगों को लालच देकर उनका फर्जी बैंक एकाउण्ट खोलवाते हैं और उसमें धोखाधड़ी कर पैसे मँगवाते हैं।

बरामदगी- 02 अदद मोबाइल फोन बरामद मय सिम कार्ड ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में - निरीक्षक नन्द किशोर मिश्रा थाना बितूर, उ0नि0 जनार्दन प्रताप स्वाट, हे0का0 जितेन्द्र गर्ग साइबर/सर्विलांस, का0 पवन कुमार साइबर सेल, का0 रोहित कुमार स्वाट, म0का0 रेनू थाना बितूर, आरक्षी चालक सतवीर अवाना स्वाट टीम ।